


RTI REQUEST DETAILS

Registration No. :	NHPCL/R/2016/80025	Date of Receipt :	09/12/2016
Transferred From :	Ministry of Power on 09/12/2016 With Reference Number : POWER/R/2016/80201		
Remarks :	Application transferred under section 6(3) of RTI Act, 2005.		
Type of Receipt :	Electronically Transferred from Other Public Authority	Language of Request :	English
Name :	AJAY KUMAR SINGH	Gender :	Male
Address :	247/3 NIKHIL MAJESTIC DEHTORA , SHASTRIPURAM AGRA, Pin:282007		
State :	Uttar Pradesh	Country :	India
Phone No. :	Details not provided	Mobile No. :	+91-9412751120
Email :	ajaymintu@gmail.com		
Status(Rural/Urban) :	Urban	Education Status :	Above Graduate
Letter No. :	Details not provided	Letter Date :	Details not provided
Is Requester Below Poverty Line ? :	No	Citizenship Status :	Indian
Amount Paid :	0 (RTI fee is received by Department of Personnel & Training (original recipient))	Mode of Payment :	Payment Gateway
Does it concern the life or Liberty of a Person ? :	No(Normal)	Request Pertains to :	
Information Sought :	<p>If an employee from Central Govt. public sector undertaking (PSU) resigns through proper channel (technical resignation) on his Selection in Other Central govt. PSU . Please answer the Following with regard to this case.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Is there any circular/guidelines/rule for transfer Earn Leave(E/L),Gratuity, Length of service etc. from Central Govt.Public sector Undertaking (PSU) to other Central Govt. PSU 2. If yes to 1. Please provide the copy of the same. 3. If yes to 1. Is this circular applicable to PSUs in ministry of Power. 		
	<p>If an employee from Central Govt. public sector undertaking (PSU) resigns through proper channel (technical resignation)</p>		

RTI-1879
13/12

Mittal
14/12/16



एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
NHPC Limited
(A Govt. of India Enterprise)

TEL. 0129.2277429 - 2256044

एनएच/आरटीआई/80025/2016/ 1385

30/12/2016

ONLINE RTI INFORMATION

प्रेषित:

श्री अजय कुमार सिंह
247/3 निखिल मजेस्टिक दहतोरा
शास्त्री पुरम
आगरा - 282007 (उत्तर प्रदेश)

विषय: "सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत सूचना (आवदेन संख्या - 80025)।
महोदय,

कृपया दिनांक 09/12/2016 के अपने आरटीआई आवदेन पत्र जो इस कार्यालय में दिनांक 13/12/2016 को आर.टी.आई एक्ट 2005 के तहत प्राप्त हुआ है, का संदर्भ ग्रहण करें।

आपके द्वारा मांगी गयी सूचना "सूचना के अधिकार अधिनियम" की धारा 5(5) के अंतर्गत संबंधित विभाग/परियोजना के डीमंड लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त हो गयी है जो अनुलग्नक 'क' के अनुसार है।

"सूचना के अधिकार अधिनियम 2005" के अन्तर्गत इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। विभागीय अपील अधिकारी का विवरण निम्न है:

श्री ऐ बी अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन),
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फ़रीदाबाद, (हरियाणा), पिन-121003

संलग्नक : (03 पन्ने)

भवदीय

(दीपक सहगल)

मुख्य अभियंता (सिविल) एवं लोक सूचना अधिकारी

e-mail : rtinhpc@gmail.com




Regd. Office
CABLE :


: NHPC OFFICE COMPLEX, SECTOR-33, FAIDABAD-121003(HARYANA)
"HYDROCORP"TELEX:343-311 NHPC INFAX:2277941

एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

अनुलग्नक - 'क'
ANNEXURE - 'I'

अंतः कार्यालय ज्ञापन	
प्रेषक: प्रमुख (मासं)-हॉस्पिटल इंपैनेलमेंट, आरटीआई एवं राजभाषा मानव संसाधन विभाग, एनएचपीसी, सैक्टर-33, फ़रीदाबाद ।	प्राप्तकर्ता: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, एनएचपीसी, सैक्टर -33, फ़रीदाबाद ।
सं: एनएच/मासं/आरटीआई/2016/ 1834	दिनांक: 26.12.2016
विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री अजय कुमार सिंह (Sh. Ajay Kumar Singh) द्वारा माँगी गई सूचना । (आवेदन संख्या: 80025)	
संदर्भ: 1) एनएच/आरटीआई/80025/2016/1330	दिनांक 14.12.2016
i) प्रश्न संख्या: 1 से 3 । संलग्नक: 02 पन्ना	माँगी गई सूचना अनुलग्नक-"क" के अनुसार है ।


(अरुण कुमार)



क/प्र/0
27/12/16

मिनालक्ष

27/12/16



This document is being released
under the RTI act. Page No...1....



एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद

संख्या: पीपीएल-847/ 261

दिनांक: 23.12.2016

अंत: कार्यालय जापन

प्रेषक	प्राप्तकर्ता
प्रमुख (मा.सं.), मानव संसाधन-नीति	प्रमुख (मा.सं.)-IV, आर.टी.आई <i>349 (मा.सं.) 23/12</i>
विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री अजय कुमार सिंह द्वारा मांगी गई जानकारी।	
संदर्भ: एनएच/आरटीआई//2016/1791 दिनांक 16.12.2016	
उपर्युक्त के संबंध में सूचना संलग्न है।	



This document is being released
under the RTI act. Page No....2

S. Suresh
23/12/16
प्रमुख (मा.सं.)

अनुलग्नक-1 न.

एन एच पी सी लिमिटेड
प्रमुख (मा.सां.) का कार्यालय
23 DEC 2016
जायरी सं०.....1816



LEAVE RULES

11. (a) The form in which application for leave or extension of leave is given is at Annexure A.
- (b) Certificate to be given by the Authorised Medical Attendant is given in Annexure B.
- (c) The form in which leave account in respect of employees is to be maintained is given in Annexure C.
- (d) Medical certificate of fitness to return to duty is given in Annexure D.

12. CARRY FORWARD OF LEAVE

12.1 On appointment in the Company

Employees of Central/State Governments who are absorbed in the Company and employees of other Public Sector Undertakings who join the Company will be allowed to carry forward their earned leave/leave on average pay at credit in their previous organization on their appointment in the Company, provided the previous organisation has paid a lump sum leave salary equal to pay to the Company.
(Rule effective from 17.10.81 vide O/O no.44/81 dated 10.11.1981)

12.2 On appointment in another Public Sector Undertaking:

Employees of the Company, who join another Public Sector Undertaking with the consent of both the employers, will be allowed to carry forward their earned leave from the Company to the new employer. In such cases a lump sum leave salary equal to pay, for the earned leave due to them from the Company would be payable by the Company to the new employer.

Note:* omitted

- 12.3 (i) Employees of the Company who join another Public Sector Undertaking with the consent of both the employers will be allowed to carry forward the half pay leave standing at their credit from the Company to the new employer. In such cases a lumpsum leave salary equal to half pay leave due to them from the Company would be payable by the Company to the new employer. Similarly, employees of other Public Sector Undertakings who are absorbed/join the Company will be allowed to carry forward their half pay leave standing at their previous organization on their appointment in the Company, provided the previous organization agrees to pay a lumpsum leave salary equal to half pay due to the Company.
(Rule 12.3(i) introduced vide Part I Office Order No. 10/91 dated 18.3.1991)



This document is being released under the RTI act. Page No...3...